

## प्रेस नोट दिनांक-18.11.2020

(1). दिनांक-17.11.2020 को श्री प्रेमप्रकाश अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज की अध्यक्षता में श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की उपस्थिति में पुलिस लाइन चित्रकूट में जनपद के समस्त कार्यालय/शाखा से आए शाखा प्रभारी एवं 01-01 आरक्षी एवं समस्त थानों से 01 उ0नि0 व 02 आरक्षी एवं 02 महिला आरक्षियों (01-महिला हेल्प डेस्क से एवं 01 एण्टी रोमियो टीम से) के साथ सैनिक सम्मेलन किया गया।

1. सम्मेलन में उपस्थित समस्त अधि0/कर्मचारीगणों से उनकी व्यक्तिगत/सामूहिक समस्यायें पूछी गयी।
2. महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क को वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए, जहां पर महिला पीड़िताओं की हर प्रकार की समस्या को शांतिपूर्वक सुनकर निस्तारण किया जाए। महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त महिला पुलिसकर्मी महिला फरियादियों से विनम्रतापूर्वक एवं अच्छा व्यवहार करें।
3. पुलिस थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद संज्ञान में आए तो सर्वप्रथम उसकी बीट सूचना अवश्य दर्ज कराए एवं हल्का उ0नि0 उस बीट सूचना की जांचकर उचित वैधानिक कार्यवाही करें।
4. अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाए एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।
5. थाना क्षेत्र के एच0एस0, सजायाफ्ता, जेल से छूटे अपराधियों के क्रियाकलापों का निरीक्षण कर अपने रजिस्टर में अवश्य अंकित करें।

### **महोदय द्वारा आर0टी0सी0 भोजनालय का निरीक्षण किया गया-**

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आरटीसी0 भोजनालय का निरीक्षण किया। गुणवत्ता की परख करने हेतु एडीजी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय ने रिक्कूट आरक्षियों के साथ भोजन किया। महोदय द्वारा रिक्कूट आरक्षियों को बताया कि पुलिस विभाग में मेस का अनुशासन सबसे बड़ा अनुशासन है, इसको बनाए रखें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराये। महोदय द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किये गये भोजन का डाइट चार्ज स्वयं दिया गया।

**महोदय द्वारा उ0नि0 से निरीक्षक पद पर प्रोन्नत हुए अधिकारियों को कंधे पर स्टार लगाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी-**

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में उ0नि0 श्री वीरेंद्र त्रिपाठी पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक एवं श्री टीकाराम वर्मा वरि0उ0नि0 थाना पहाड़ी के उ0नि0 से निरीक्षक पद पर प्रोन्नत होने पर कंधे में स्टार लगाकर अलंकृत किया एवं बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी।

**इसके पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की उपस्थिति में समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। समीक्षा गोष्ठी में महोदय द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए-**

1. पाँक्सो एक्ट के लम्बित अभियोगों का निस्तारण किया जाए एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाये।
2. महोदय द्वारा यातायात माह नवम्बर के दृष्टिगत यातायात जागरूकता कार्यक्रम कराकर वाहन चालकों को जागरूक करायें।
3. लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये।
4. अभियान चलाकर वाँछित/वारण्टी एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायें, हिस्ट्रीशीटों का सत्यापन करायें।
5. सुरक्षा समिति के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ गोष्ठी कर सक्रिय रहने हेतु बताए।
6. अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये।

इस दौरान श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक, श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री रामप्रकाश क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक, श्री शिवबदन सिंह वाचक

पुलिस अधीक्षक, श्री आलोक कुमार सिंह प्रभारी प्रधान लिपिक, श्री कमलेश राव स्टेनो पुलिस अधीक्षक समस्त शाखा प्रभारी एवं अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री राकेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ कल्लू पुत्र गुलाब चन्द्र रैदास निवासी खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 29 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

29 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज

**गिरफ्तार करने वाली टीम:**

1. उ०नि० श्री राकेश कुमार यादव चौकी सीतापुर
2. उ०नि० श्री इन्दल
3. आरक्षी राहुल देव
4. होमगार्ड दिलीप यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री दुर्गेश कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुन्दरलाल पुत्र रामजी निवासी माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा को ग्राम माराचन्द्रा के तालाब के पास से एक ट्रक्टर ट्राली में ढोका पत्थर लादे हुये अवैध तरीके से चोरी कर ले जाते हुये पकड़ा गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु०अ०सं० 53/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 3 लो०सं०नि०नि० अधि० पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ०नि० श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी अरविन्द यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुमन ब्राह्मण पत्नी संजय निवासी अशोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति संजय द्वारा शराब पीकर उनके तथा बच्चों को मारपीटा जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। उ०नि० श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं पति द्वारा प्रताड़ित न करने की बात कही । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 18.11.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री गुलाबचन्द्र मौर्या तथा उनकी टीम द्वारा मु०अ०सं० 118/2020 धारा 379/411 भादवि० के वाँछित अभियुक्त हनुमान प्रसाद उर्फ लाली पुत्र धनन्जय उर्फ राजा निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्या थाना रैपुरा
2. आरक्षी अरूण यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम रगौली के बाहर खलिहान से अभियुक्त (1) श्यामबाबू पुत्र शिवदास निवासी शाहपुर, शाहपुर ऊपरहार थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी (2) बौरा पुत्र रामसजीवन निवासी रीठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट (3) जय सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी नादिनकुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के मालफड़ से-7500/- रुपये, जामातलाशी से-520/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। अभियुक्त भरत पुत्र रामसुरिश निवासी नादिनकुर्मियान थाना राजापुर व 02 नाम पता अज्ञात पुलिस टीम को देखकर भाग गए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

1. मालफड़- 7500/- रुपये
2. जामातलाशी- 520/- रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

### बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविकुमार सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी दीपक सिंह
3. आरक्षी लालू यादव
4. आरक्षी ब्रजेश कुमार

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उ0नि0 श्री गुलाब चन्द्र मौर्या द्वारा मु0अ0सं0 92/19 धारा 279/337/338/304ए भादवि0 के वाँछित अभियुक्त मानसिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी चन्दई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त द्वारा मई 2019 को देवधा के पास सड़क दुर्घटना का नामजद अभियुक्त है घटना के बाद से यह अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश किया गया था।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्या

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम चौकीडांड, भरथोल, भरतपुर, अहिरनपुरवा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा किटहना पुरवा मजरा बहिलपुरवा में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा प्राथमिक विद्यालय चिल्लामाफी में, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा प्रमुख चौराहा, बस स्टैण्ड, पुरानी कोतवाली, काली देवी चौहारा, पुरानी बाजार, चौगलिया, मिशन रोड, एलआईसी चौराहा, गणेश बाग में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा भैरोपागा, चुंगी चौराह में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर बस, स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्द माता मन्दिर कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा हरदीकलां, बोझ, बोझा फार्म, महावीर का पुरवा, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज कस्बा मानिकपुर में, विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस

आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु एवं जंगलों में बदमाशों की गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बहिलपुरवा, मानिकपुर एवं मारकुण्डी की पुलिस टीमों द्वारा कॉम्बिंग की गयी। श्री दीनदयालय सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा की टीम द्वारा रमपुरिया जंगल, उमरहन जंगल, धोबरहा जंगल, गोडवारी जंगलों में, श्री के.के. मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा मरवरिया पहाड़ एवं मरवरिया के जंगलों में, श्री रमेश चन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी के नेतृत्व में छेरिहा एवं रिछोहनी के जंगलों में कॉम्बिंग की गयी।

(10). आज दिनांक 18.11.2020 को यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय की अध्यक्षता में मण्डी गेट पर ई रिक्शा चालकों को एकत्र कर यातायात नियमों के बारे में बता कर विधिवत जागरूक किया गया साथ ही साथ जनता के लोगों को भी एकत्रित कर यातायात नियमों के बारे में बताया गया तथा सभी को यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए। तदोपरांत ई रिक्शा चालकों की रैली निकालकर जनता के लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। दौरान कार्यक्रम एआरटीओ श्री सुरेश चंद्र यादव पीटीओ श्री वीरेंद्र राजभर टीएसआई श्री योगेश यादव तथा जनता के संप्रदांत व्यक्ति उपस्थित रहे।